

परिवहन के भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए Zero Emissions Vehicle (ZEV) Subsidy [शून्य उत्सर्जन वाहन (ज़ेडईवी) सब्सिडी] और भी अधिक विक्टोरियावासियों और व्यवसायों को नया इलेक्ट्रिक वाहन अधिक जल्दी खरीदने में समर्थन दे रही है।

ZEVs (ज़ेडईवी) विक्टोरिया के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर पारगमन की शुरुआत कर रहे हैं - जीवाश्म-आधारित ईंधन से संचालित वाहनों से दूर अधिक स्वच्छ, हरित और किफायती तरीके से वाहन चलाना।

यह परिवहन का भविष्य है, और विक्टोरिया सरकार इसे प्रोत्साहित करने में सहायता दे रही है।



नए शून्य उत्सर्जन वाहन की अग्रिम लागत में अधिकतम \$3,000 की सब्सिडी प्राप्त करें



2 मई 2021 से उपलब्ध



20,000 से भी अधिक सब्सिडियाँ उपलब्ध

कार्यक्रम के बारे में

Zero Emissions Vehicle (ZEV) Subsidy [शून्य उत्सर्जन वाहन (ज़ेडईवी) सब्सिडी] नए शून्य उत्सर्जन वाहन की अग्रिम लागत को कम करती है, तािक और भी अधिक विक्टोरियावासी परिवहन के भविष्य को तेजी से प्रोत्साहित कर सकें।

विक्टोरिया सरकार का लक्ष्य यह है कि 2030 तक विक्टोरिया में बेचे जाने वाले सभी हल्के वाहनों में से आधे वाहन ZEV (ज़ेडईवी) हों। उनका Zero Emissions Vehicle Roadmap (शून्य उत्सर्जन वाहन मार्गपथ) हमारे खच्छ ऊर्जा भविष्य के इस प्रमुख संचालक को रोल आउट करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करता है।

नया वाहन खरीदना एक बड़ा निर्णय होता है। मार्गपथ में नीतियों और कार्यक्रमों के \$100 मिलियन डॉलर के पैकेज में से \$46 मिलियन की धनराशि विक्टोरियावासियों को 20,000 से भी अधिक ZEVs (ज़ेडईवी) खरीदने में समर्थन देने के लिए समर्पित हैं।

शून्य उत्सर्जन वाहन क्या होते हैं?

जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ZEVs (ज़ेडईवी) में टेलपाइप उत्सर्जन शून्य होते हैं, जिससे वे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवाश्म-प्रेरित आंतरिक दहन इंजन वाहन की तुलना में बेहतर होते हैं। इनमें पेट्रोलियम ईंधनों का उपयोग नहीं किया जाता है, और ये उत्सर्जन को काफी कम करने में सहायता दे सकते हैं, खासकर जब स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए। इसका मतलब यह है कि वे वायु प्रदूषण की मात्रा को कम भी करते हैं, जिससे हमारे शहर और कस्बे जीवन जीने के लिए बेहतर हो जाते हैं।

ध्यान दें: प्लग-इन हाइब्रिड वाहन ZEVs (ज़ेडईवी) नहीं होते हैं और ये ZEV Subsidy (ज़ेडईवी सब्सिडी) के लिए पात्र नहीं हैं।

सब्सिडी कितनी है?

वर्तमान में प्रत्येक सब्सिडी का मूल्य \$3,000 है, जो 2 मई 2021 को या उसके बाद खरीदे गए पात्र ZEVs (ज़ेडईवी) के लिए मान्य है।

इस कार्यक्रम के तहत 20,000 से भी अधिक सब्सिडियाँ उपलब्ध हैं, जोकि सभी सब्सिडियों का आवंटन पूरा हो जाने तक, या तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित की जाएंगी, इनमें से जो भी अवधि कम हो।



परिवहन के भविष्य को प्रोत्साहन

solar.vic.gov.au/zero-emissions-vehicle-subsidy

Zero Emissions Vehicle (ZEV) Subsidy [शून्य उत्सर्जन वाहन (ज़ेडईवी) सब्सिडी]







क्या मैं पात्र हूं?

ZEV Subsidy (ज़ेडईवी सब्सिडी) विक्टोरियावासियों और विक्टोरिया में पंजीकृत कार्यालय वाले व्यवसायों के लिए उपलब्ध है।

इस समय यह सब्सिडी विक्टोरियावासियों द्वारा एक वाहन की खरीद और व्यवसायों द्वारा दो वाहनों की खरीद के लिए उपलब्ध है। यह उपलब्धता के अधीन है और केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही लागू होगी:

- » प्रत्येक ZEV (ज़ेडईवी) के लिए एक बार
- » प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बार
- » प्रत्येक व्यवसाय के लिए दो बार।

ZEV Subsidy (ज़ेडईवी सब्सिडी) की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि आप:

- » विक्टोरिया राज्य के व्यक्तिगत निवासी हों, जिसके पास विक्टोरिया का ड्राइवर्स लाइसेंस है; या
- » व्यावसायिक आवेदक हों, जिसका विक्टोरिया राज्य में एक पंजीकृत कार्यालय है।

वाहन को:

- » पात्रता-युक्त ZEV (ज़ेडईवी) मॉडल होना चाहिए, जो एक पैसेंजर कार है
- » \$68,740 की सीमा से कम खरीद मूल्य (सीमा-शुल्क युक्त मूल्य) का होना चाहिए
- » बिल्कुल नए या प्रदर्शनकारी मॉडल के रूप में खरीदा जाना चाहिए
- 2 मई 2021 को या उसके बाद खरीदा जाना चाहिए, जैसा कि बिक्री अनुबंध पर दिनांकित है
- » प्रतिभागी ZEV (ज़ेडईवी) व्यापारी के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए
- » विक्टोरिया राज्य में पंजीकृत होना चाहिए
- » ग्राहक के बिक्री अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि से अधिकतम 6 महीनों के अंदर वितरित और VicRoads के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए।

लीज़िंग समझौते के तहत खरीदे गए ZEVs (ज़ेडईवी) भी पात्र हैं, बशर्ते अन्य सभी मानदंड पूरे किए जाएं। और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।

लाइसेंसीकृत मोटर कार व्यापारी, सरकारी निकाय (जिनमें स्थानीय परिषदें भी शामिल हैं), और मोटरसाइकिलें तथा अन्य प्रकार के वाहन (जिनमें प्लग-इन हाइब्रिड वाहन शामिल हैं) इस समय सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं।

मुझे सब्सिडी कैसे मिल सकती है?

बस इस कार्यक्रम में 'ZEV (ज़ेडईवी) व्यापारी' के रूप में भाग लेने वाले कार डीलर से पूछें। इनकी सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वे पात्रता मानदंडों या ZEV (ज़ेडईवी) खरीदने के बारे में आपके किसी भी प्रश्न में आपकी सहायता कर सकते हैं।

जब आप किसी प्रतिभागी ZEV (ज़ेडईवी) व्यापारी से पात्रतायुक्त ZEV (ज़ेडईवी) खरीदते/खरीदती हैं, तो वे आपकी ओर से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं, तो सब्सिडी को आपके अंतिम भुगतान में छूट के रूप में लागू किया जाएगा, और आपको यह छूट अपने खरीद दस्तावेजों में दिखाई देगी।

इस संदेश को फैलाने में सहायता करें

प्रदर्शन से लेकर लागत तक, आप शून्य उत्सर्जन वाहनों की क्षमता के बारे में आश्चर्यचिकत होंगे/होंगी। इस संदेश को फैलाने में सहायता करें - DELWP Energy की वेबसाइट energy.vic.gov.au/ renewable-energy/zero-emissions-vehicles/ zev-facts पर कुछ रोचक तथ्य पढ़ें और उन्हें साझा करें।



क्या आपके पास कोई प्रश्न हैं?

Solar Victoria (सौर विक्टोरिया) की वेबसाइट solar.vic.gov.au/zero-emissions-vehiclesubsidy पर ZEV Subsidy (ज़ेंडईवी सब्सिडी) के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध है।



हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें zevsubsidy@ team.solar.vic.gov.au पर ईमेल भेज सकते/ सकती हैं या 1300 376 393 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:00बजे – शाम 6:00बजे के बीच (सार्वजनिक आवकाशों के अतिरिक्त) कॉल कर सकते/सकती हैं।

गैर-अंग्रेजी भाषी लोग

यदि आप अपनी भाषा में हमारे साथ बात करना चाहते/चाहती हैं, तो आप 131 450 पर National Translating and Interpreting Service (राष्ट्रीय अनुवाद और दुभाषिया सेवा) को फोन करके निःशुल्क फोन अनुवाद सेवाओं का उपयोग कर सकते/सकती हैं।



सगमता

यदि आप इस प्रकाशन को वैकल्पिक स्वरूप में प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया Solar Victoria (सौर विक्टोरिया) से <u>comms@team.solar.</u> vic.gov.au पर संपर्क करें।

© विक्टोरिया राज्य पर्यावरण, भूमि, जल एवं नियोजन विभाग 2021

अस्वीकरण: यह प्रकाशन आपके लिए सहायक हो सकता है, लेकिन विक्टोरिया राज्य और उसके कर्मचारी इस बात की कोई गारंटी नहीं देते हैं कि यह प्रकाशन सभी प्रकार की खामियों से मुक्त है या आपके विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और इसलिए यह प्रकाशन ऐसी किसी भी त्रुटि, हानि या अन्य परिणाम के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करता है जो इस प्रकाशन में किसी भी जानकारी पर निर्भर करने से आपके लिए पैदा हो सकते हैं।